

इस बीच दीपावली पंच महापर्वों की श्रृंखला का पहला पर्व धनतेरस कल प्रदेश भर में धूम धाम से मनाया गया। देर रात बाजारों में चहल पहल रही और लोगों ने पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी की। आभूषणों, बर्तनों तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों पर लोगों की काफी भीड़ भाड़ देखी गई। धनतेरस के दिन आभूषण और बर्तन खरीदने की प्राचीन परम्परा है। हमारे मुरादाबाद प्रतिनिधि ने बताया कि वहां पीतल के बर्तनों की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ रही। लोगों ने पीतल की मूर्तियों तथा बर्तनों की विशेष रूप से खरीदारी की।



वनटांगिया/पेंशन

प्रदेश सरकार ने वनटांगिया और मुसहर जाति की निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने का फैसला किया है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस सम्बंध में सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरा कराकर पात्र महिलाओं को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं।



ई-स्वास्थ्य केन्द्र

अगले वर्ष प्रदेश भर में पांच सौ ई-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की योजना है। ये केन्द्र पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे और इनमें सभी तरह के रोगों का इलाज होगा। इसके साथ ही गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीज टेली मेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह ले सकेंगे। प्रदेश के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल लखनऊ में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ में दो तथा इलाहाबाद में एक ई-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।



ऋण मोचन

प्रदेश सरकार की फसली ऋण मोचन योजना के तहत कल जौनपुर के क्षेत्र पंचायत डोभी में आयोजित एक समारोह में दो सौ पचास किसानों को फसली ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गये। केराकत के विधायक दिनेश चौधरी ने किसानों को प्रमाण-पत्र बांटे।

